



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 823) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 दिसम्बर 2011

सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-12/2011/1497—तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2011 को तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 722.00 बायों में हुए टूटान की जाँच मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से करायी गयी। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त उक्त टूटान के संबंध में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने एवं स-समय इसकी सूचना विभाग को न देने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री संजीव दत्त, प्रभारी सहायक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1) के तहत निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री दत्त, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री दत्त का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, दरभंगा निर्धारित किया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में श्री दत्त को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

उक्त निर्णय श्री दत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से  
भरत झा,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 823-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>